

प्रेस विज्ञप्ति

## जामिया टीम ने एआईयू के नार्थ-ईस्ट जोन में पहला स्थान हासिल किया

जामियामिल्लिया इस्लामिया के ऑफिसियल क्लिज़ क्लब Quizento - ने महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय, मुलाना-अम्बाला द्वारा आयोजित 36वें इंटर-यूनिवर्सिटी नॉर्थ-वेस्ट जोन यूथ फ़ेस्टिवल, Yuva MMaha Utsav 2023 के लेटेस्ट एडिशन में विश्वविद्यालय का नाम रोशन किया। यह फ़ेस्टिवल एसोसिएशन ऑफ़ इंडियन यूनिवर्सिटीज (एआईयू) के तत्वावधान में हरियाणा 24 से 28 जनवरी 2023 तक आयोजित किया गया।

जामिया की टीम में इकोनॉमिक्स विभाग के फवास के., सिविल इंजीनियरिंग विभाग के रजीबुल अवल और प्रबंधन अध्ययन विभाग के आशीष कुमार गुप्ता को कम्पेरिटिव लिखित और मौखिक ऑडियो-वीडियो प्रश्नों के दो राउंड के बाद विजेता घोषित किया गया।

टीम ने वाइस चांसलर प्रो. नजमा अख्तर के साथ प्रो. नाज़िम हुसैन जाफरी, रजिस्ट्रार, जेएमआई प्रो. इब्राहिम, डीन, स्टूडेंट्स वेलफेयर (डीएसडब्ल्यू) से मुलाकात की। कुलपति ने इस उपलब्धि के लिए टीम को बधाई दी और भविष्य में लिए उनकी सफलता की कामना की।

इस तरह के शीर्ष स्तर के क्लिज़ में टीम द्वारा यह प्रदर्शन उनके जुनून और बुद्धिमत्ता का प्रमाण है, जो क्लब को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। टीम को उत्तर-पश्चिम क्षेत्र में तीसरी सर्वश्रेष्ठ साहित्यिक टीम भी घोषित किया गया।

टीम 24-28 फरवरी 2023 को जैन विश्वविद्यालय, बंगलुरु में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय युवा उत्सव में उत्तर-पश्चिम क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेगी। "इन असाधारण प्रतिभाओं का प्रदर्शन हमेशा एक शानदार दृश्य होता है, मुझे पूरी टीम पर गर्व महसूस होता है।" प्रो. एम के नबी ने कहा, जो क्लिज़ेंटो के संयोजक के तौर पर छात्रों के साथ उनके टीम मैनेजमेंट के लिए गए थे।

जनसंपर्क कार्यालय

जामिया मिल्लिया इस्लामिया